



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 1984/वैशाख 21, 1906

No. 160]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 1984/VAISAKHA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 11 मई, 1984

अधिसूचना

सं० 110/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

शा० का० नि० 344(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का. 21) की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम' कहा गया है) पहली अनुसूची की एसी मव सं० के, जो इससे उपाखण्ड सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उस पर वृद्धणीय उतने विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना इस प्रकार प्रभाय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	विशेष उत्पाद शुल्क की दर
1	2	3

- उक्त पहली अनुसूची की मव सं० कुछ नहीं
 - 4II(2), 6, 7, 8, 9, 11कक(1), 11ड, 13, 23(1), 33क, 33घ, 33 च, 37 (क) (1),

37कक, 38 और 68 के अन्तर्गत आने वाला माल।

- उक्त पहली अनुसूची की मव सं० केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर प्रभाय उत्पाद शुल्क की रकम का पांव प्रतिशत।
 - 1(3), 1क, 1ख, 1ग, 1घ, 1ङ, 2(2), 4 II (1), 4II (3) 411(4)II, 411(5), 4II(6), 4II(7), 10, 11, 11क, 11कक(2), 12, 14, 14क, 14कक, 14ख, 14खख, 14ग, 14घ, 14घघ, 14ङ, 14ज, 14जज, 14ज, 15, 15क, 15कक, 15गग, 15घ, 16क, 16ख, 17, 22ग, 22ङ, 22छ, 23क, 23ख, 23ग, 28क, 29, 29क, 30, 30क, 30ख, 31, 32, 33, 33ख, 33ग, 33घ, 33ङ, 34, 34क, 34ख, 36, 37क (ii) (37) क(iii) 37 क(iv) 37 क(v), 37ख, 37खख, 37ग, 37गग, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 51क, 52, 53, 55 56, 57, 58, 59 (1) 59(2), 59(3) 59(5), 59(6), 60 61, 62 63 64, 65, 66 और 67 के अन्तर्गत आने वाला माल।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री या संघटक भागों पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन पहले ही संवत् किसी उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन पहले ही संवत् अतिरिक्त शुल्क की बाबत मुजरा देने के लिए किसी छूट के लिए अथवा ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क में उक्त उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के बराबर, कमी करने के लिए उपबंध करने वाली कोई अधिसूचना, ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन प्रसार्य उत्पाद शुल्क की रकम का अवधारण करने के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th May, 1984

NOTIFICATION

No. 110/84—Central Excises

G.S.R. 344 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby exempts the goods, falling under the Item Nos. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the Central Excises Act], specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, read with any notification for the time being in force issued by the Central Government in relation to the duty of excise so chargeable.

TABLE

Sl. No.	Description of the goods	Rate of special excise duty
(1)	(2)	(3)
1.	Goods falling under Item Nos. 1(1), Nil.	
	4II(2), 6, 7, 8, 9, 11AA(1), 11E, 13, 23(1), 33A, 33DD, 33F, 37A(i), 37AA, 38 and 68 of the said First Schedule.	
2.	Goods falling under Item Nos. 1(3), 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2(2), 4II(1), 4II(3), 4II(4), 4II(5), 4II(6), 4II(7), 10, 11, 11A, 11AA(2), 12, 14, 14A, 14AA, 14B, 14BB, 14C, 14D, 14DD, 14E, 14F, 14FF, 14G, 14H, 15, 15A, 15AA, 15CC, 15D, 16A, 16B, 17, 22C, 22E, 22G, 23A, 23B, 23C, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 32, 33, 33B, 33C, 33D, 33E, 34, 34A, 34B, 36, 37A(ii), 37A(iii), 37A(iv), 37A(v), 37B, 37BB, 37C, 37CC, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59(1), 59(2), 59(3), 59(5), 59(6), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 and 67 of the said First Schedule.	Five per cent. of the amount of duty excise chargeable on such goods under the Central Excises Act.

Explanation:—For the purposes of this notification, any notification providing for any exemption for giving credit with respect to or reduction of duty of excise under the Central Excises Act on such goods equal to, any duty of excise under the Central Excises Act, or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), already paid on the raw material or component parts used in the production or manufacture of such goods, shall not be taken into account for determining the amount of duty of excise chargeable on such goods under the Central Excises Act.

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 111/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

फा० सं० 345(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12 क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन देती है कि जहाँ कोई माल पूर्वोक्त धारा के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया है और जहाँ ऐसे माल का भारत के बाहर, किसी देश या राज्यक्षेत्र को जो नेपाल और भूटान से भिन्न हैं, निर्यात करने पर, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 या 12 क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191क के अधीन घोषणा द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर बिगूँ उत्पाद शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने की अनुज्ञा दी है वहाँ विशेष उत्पाद शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अधीन प्रयुक्त किया जाएगा जो शर्तें उक्त उत्पाद शुल्क के रिबेट को लागू हैं।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 111/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid section and where on the export of such goods to any country or territory outside India, other than Nepal and Bhutan, the Central Government, by a notification under the said rule 12 or rule 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under rule 191A of the Central Excise Rules, 1944, as the case may be, has allowed a rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of special duty of excise shall also be allowed subject to the same conditions as govern the rebate of the said excise duty.

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 112/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

फा० सं० 346(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191 ख द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन देती है कि जहाँ कोई माल पूर्वोक्त धारा के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क के दायित्वाधीन है, और जहाँ केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 191 ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा ऐसे माल से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संघपत्राधीन विनिर्माण की अनुज्ञा दी है वह ऐसे माल से ऐसी वस्तुओं का संघपत्राधीन विनिर्माण भी पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा जो शर्तें उक्त नियम 191 ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू हैं।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 112/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191B of the Central Excise Rules, 1944, read with section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under the aforesaid section and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191B, permitted the manufacture of specified articles in bond from such goods, manufacture of such articles, in bond, from such goods shall also be permissible for the purpose of the aforesaid section subject to the same conditions as govern such manufacture under the said rule 191B.

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 113/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 347 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस माल को जो पूर्वोक्त धारा, के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया है, उस पर उद्घाटनीय जतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना उक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य उत्पाद शुल्क माल पर (जिसे उसमें इसके पश्चात् 'मध्यवर्ती उत्पाद' कहा गया है), पहले ही संबन्धित विशेष उत्पाद शुल्क के समतुल्य है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्निष्ठ छूट केवल उसी माल को लागू होगी जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उस पर उद्घाटनीय जतने उत्पाद शुल्क से छूट देते हुए, जितना संबंधित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती माल पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन पहले ही संबन्धित उत्पाद शुल्क के समतुल्य है, पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 113/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 3147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby exempts goods which have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid section, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as the intermediate products) used in the manufacture of the said goods :

Provided that the exemption contained in this notification shall be applicable only to those goods, in respect of which notifications under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid Rules have been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is equivalent to the duty of excise under the said Central Excises and Salt Act already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 114/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 348 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद शुल्क माल को उक्त धारा की उपधारा 1 के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 114/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 348(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section.

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 115/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 349 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

(1) कार्बन काजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए आशयित सी० बी० ए० (फोनाल मिश्रण) "500" और "1300" को, चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 या मद सं० 11 के अंतर्गत आता है, और

(2) कार्बन काजल के विनिर्माण के कार्बन काजल फीड स्टॉक सं० 72 और बर्मा शैल कार्बन काजल फीड स्टॉक एस० एल० को, चाहे वे उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 के अंतर्गत आते हैं।

उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

गौतम रे, अवर सचिव

NOTIFICATION

NO. 115/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby exempts—

(i) C.B.F. (Phenol Extract) '500' and '1300', whether it falls under Item No. 9 or Item No. 10 or Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black ; and

(ii) Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Carbon Black Feed Stock Sl. whether they fall under Item No. 9 or Item No. 10 of the said First Schedule intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black,

from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section.

[F. No. 334/1/84-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 116/84 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 350 (अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसारण में यह निदेश देती है कि इससे उपाय सारणी क और सारणी ख के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्गों के उत्पाद शुल्क माल को बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट माल" कहा गया है)

जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम" कहा गया है) पहली अनुसूची की ऐसी मद संख्याक के अंतर्गत आता है, जो उक्त सारणियों के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, और जिसकी किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए 1 मार्च, 1984 से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान "(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रोत्साहन अवधि" कहा गया है) आधारित निकासी से अधिक निकासी की गई है—"

(क) किसी मामले में जहाँ विनिर्दिष्ट माल पर शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन मूल्य के प्रति निर्देश से उद्ग्रहणीय है और ऐसे विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन प्रभावी शुल्क की प्रभावी दर मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ :—

- (i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की ऐसी निकासी पर संवत्त सीमाशुल्क के 30 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा; और
- (ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की ऐसी निकासी पर संवत्त उत्पाद शुल्क के बराबर रकम का मुजरा;

(ख) किसी अन्य मामले में—

- (i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संवत्त उत्पाद शुल्क के 15 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा, और
- (ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संवत्त उत्पाद शुल्क के 20 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा,

उक्त सारणियों के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्त, यदि कोई हो, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जा सकेगा—

- (i) उक्त सारणियों के स्तंभ (3) में वर्णित माल की निकासी (जिसे अंतर्गत आधारिक निकासी है), उक्त सारणियों के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संगणना के लिए इकाई के अनुसार पृथक् संगणित की जाएगी और प्रत्येक ऐसे क्रम संख्याक की बाबत उक्त क्रम संख्याक के सामने उक्त सारणियों के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सभी माल की निकासी का कुल योग संगणना में लिया जाएगा।
- (ii) विनिर्दिष्ट माल की निकासियों का (जिनके अंतर्गत आधारिक निकासी है) अवधारण करने में उक्त सभी या किसी अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी और निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी भी संगणना में ली जाएगी।
- (iii) किसी भी विनिर्माता को 1 अप्रैल, 1985 के पूर्व मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (iv) किसी ऐसे कारखाने की बाबत जिससे विनिर्दिष्ट माल की निकासी—
- (क) 1 अप्रैल, 1981 को या उसके पश्चात् पहली बार की गई थी; या
- (ख) वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान नहीं की गई थी,

मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(v) आधारिक निकासी के 160 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संवत्त उत्पाद शुल्क की बाबत मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(vi) आधारिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि की बाबत उक्त सारणी क के क्रम संख्याक 23, 24, 25 और 26 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल की (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् उक्त विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) निकासी का अवधारण करने के लिए उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए आधारिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि के दौरान बाहर से कारखाने में प्राप्त उक्त विनिर्दिष्ट माल की मात्रा आधारिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि के दौरान की गई उक्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी से क्रमशः घटा दी जाएगी।

(vii) उपरोक्त खंड (ii) में किसी बात के होने हुए भी, आधारिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि की बाबत उक्त सारणी क के क्रम सं० 23, 24, 25 और 26 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल का (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् उक्त विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) अवधारण करने के लिए उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के उपयोग के लिए ऐसी अवधियों के दौरान उत्पादन के कारखाने के भीतर की विनिर्दिष्ट माल की निकासी संगणना में नहीं ली जाएगी।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) "आधारिक निकासी" से—

(क) ऐसे कारखाने के मामले जो किसी कारण से आधारिक अवधि के दौरान किसी एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए बन्द नहीं रहा था—

(i) उक्त सारणी क के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधारिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने से ऐसे माल की निकासी का 110 प्रतिशत अभिप्रेत है; और

(ii) उक्त सारणी ख के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधारिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने से ऐसे माल की निकासी का 120 प्रतिशत अभिप्रेत है ;

(ख) ऐसे कारखाने के मामले में, जो किसी कारण से आधारिक अवधि के दौरान एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए बन्द रहा था, उपरोक्त खंड (क), के यथास्थिति, उपखंड (i) के अधीन या गुणनखंड 365/365—य द्वारा गुणा करके उपखंड (ii) के अधीन अवधारित निकासी अभिप्रेत है जहाँ यह, यथास्थिति, अवधि या अवधियों में समाविष्ट कुल दिन की संख्या का घोटक करता है जिसके दौरान कारखाना इस प्रकार बन्द रहा था।

(2) "आधारिक अवधि" ऐसे अवधि होगी जिसमें 1 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाली और 29 फरवरी, 1983 को समाप्त होने वाली या 1 मार्च, 1983 को प्रारम्भ होने वाली और 29 फरवरी, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट माल की निकासी का योग उच्चतर है।

(3) "संवत्त उत्पाद-शुल्क" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल् वस्तु अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और किस्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 के अधीन संवत्त उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, का कुल योग अभिप्रेत है।

(4) "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क की प्रभावी दर" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित, जो तत्समय प्रयुक्त है (जो उस अधिसूचना क

से भिन्न है जिसमें ऐसे माल पर ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल या संघटक पुर्जों पर पहले से ही संवत् किसी उत्पाद शुल्क की जागत मुजरा देने या उसके बराबर कटौती करने के लिए किसी छूट के लिए उपबंध है) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की पड़ती अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर अभिप्रेत है।

(5) "मूल्य" से—

(क) उक्त सारणी ख के क्रम सं० 1 से 17 के सामने विनिर्दिष्ट

माल के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अपबंधों के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

(ख) (ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या क 18 से 23 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाधत, यथा स्थिति उपरोक्त खंड (क) के अधीन या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और वीमा विभाग की अधिसूचना सं० 120/75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 के उपबंधों के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

सारणी-क

क्रम सं० केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की सब संख्याक	माल का वर्णन	संगणता के लिए इकाई	शर्त
1	2	3	5
1. 14क	सोडा क्षार	भार	—
2. 14कक(1)	कैल्शियम कार्बाइड, ग्लीसिंग पेस्ट और ग्लीसिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडा बाइकार्बोनेट, पोटाशियम या सोडियम का बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परक्साइड और पोटाशियम परबेंगेनेट	भार	—
3. 14ख	कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश	भार	—
4. 14ग	गिलसरीन	भार	—
5. 14घ	संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद	भार	—
6. 14छ	हाइड्रोक्लोरिक और स्लफ्यूरिक अम्ल	भार	—
7. 14ज(i)	आक्सीजन	आयातन	—
8. 14ज(ii), (iii), (v) और (vi)	केलोरिज, असोनिय, कार्बनिक अम्ल (कार्बनडाई-आक्साइड) और एसिटीलीन	भार	—
9. 15 (क)(1)	कृतिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री तथा अन्य सामग्री	भार	—
10. 15कक	कार्बनिक सरफेस ऐक्टिव एजेंट (साबुन से भिन्न) सरफेस-ऐक्टिव निमित्तों और धुलाई निमित्तया	भार	—
11. 16I(i)(क)(1)	दो पहियों वाले मोटरयानों अर्थात् स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड और अन्य मोटरयानों के लिए टायर	संख्या	परन्तु यह कि कारखाने से निकासी किए गए टायरों की बाधत विनिर्माता से वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 268/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982 द्वारा दी गई छूट का उपभोग नहीं किया है या वह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 88/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1984 द्वारा दी गई छूट का उपभोग नहीं करता है।
12. 16I(i)(ख)(i)	इस सारणी के क्रम सं० 11 के सामने संख्या/विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटरयानों के लिए टायर	—यथोक्त—	
13. 16I(2)(क) 16I(3)(क)(i) और 16I(i3)(ख)(i)	ट्रैक्टरों के लिए टायर जिनके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टरों के लिए टायर	संख्या	—यथोक्त

14. 17(1)	अविलेपित और विलेपित मुद्रण और भार लेखन भार कागज) पोस्टर कागज से भिन्न)	भार	परन्तु यह कि कारखाने से निकाली किया गया, अविलेपित और विलेपित मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न) की वास्तविक विनिर्माता ने विरल मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 108/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1981 द्वारा दी गई छूट का उपयोग नहीं किया गया है या नहीं करा है। परन्तु यह और भी कि ऐसे कागज का उत्पाद लुगदी से किया गया है।
15. (17)(1)	कागज बोर्ड और अन्य सभी प्रकार का कागज	भार	परन्तु यह कि ऐसे कागज बोर्ड या कागज का उत्पादन लुगदी से किया गया है।
16. मद सं० 18 की उपमद I	स्टेपल फाईबर और सेलुलोजिक मूल का टो	भार	---
17. -यथोक्त-	स्टेपल फाईबर और असेलुलोजिक भार मूल का टो- एकाईलिक फाईबर	भार	---
18. -यथोक्त-	स्टेपल फाईबर और असेलुलोजिक मूल का टो पालि- एस्टर	भार	---
19. -यथोक्त-	क्रम सं० 17 या सं० 18 के अंतर्गत आने वाले स्टेपल फाईबर असेलुलोजी मूल का टो	भार	---
20. मद सं० 18 की उपमद II	कृत्रिम किलामे जो पूर्णतः सेलुलोजी या सम्मिश्रित भार सेलुलोज या दोनों से मिलकर बना है	भार	---
21. -यथोक्त-	नाईलान किलामेंट सूत, टेक्स्चरीकृत से भिन्न	भार	---
22. -यथोक्त-	पालिएस्टर किलामेंट सूत, टेक्स्चरीकृत से भिन्न	भार	---
23. 25 25	इस्पात की सिलिलिया, ब्लॉक जम्प और इस्पात के क्ले ही रूप; और इस्पात के अपशिष्ट और स्कैप	भार	---
24. 26क	तांबा	भार	परन्तु यह कि ऐसे तांबे का एकीकृत अवस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
25. 25	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 25 के अंतर्गत आने वाले माल जो निम्नलिखित से भिन्न है :- (i) इस सारणी के क्रम सं० 20 और 27 के सामने विनिर्दिष्ट माल; और (ii) उक्त मद सं० 25 की उपमद (2) और (5) के अंतर्गत आने वाले माल।	भार	परन्तु यह कि ऐसे माल का किता एकीकृत अवस्क आधारित संयंत्र में या किसी कारखाने में विद्युत घट्टी की सहायता से विनिर्माण किया जाता है।
26.	जस्ता	भार	परन्तु यह कि ऐसे जस्ते का एकीकृत अवस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
27. 25	टिनप्लेट और टिनकी चादर	भार	---
28. 30 ख	मोटर स्टार्टर	संख्या	---
29. 31(1)	विद्युत बैटरिया (शुष्क क्रिस्म की धातु आवरण से ढकी हुई बैटरियों से भिन्न)	संख्या	---
30. 31(1)	विद्युत बैटरिया (शुष्क क्रिस्म की आवरण से ढकी हुई बैटरिया)	संख्या	---
31. 31(2)	विद्युत बैटरिया (स्टोरेज क्रिस्म की)	संख्या	---
32. 32(1)	छोटे लैम्पों, और बुरफ सूचक धलौं से, जिनका उपयोग टैलीफीन और तार के स्विच बोर्डों और सहस्रक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विभिन्न नियत और गैस भरे विद्युत बल्ब	संख्या	---

33.	32(1)	छोटे विद्युत बल्ब और दृश्य सूचक बल्ब निका उप- योग टेलीफोन और तार स्विच बोर्डों और सहस्र प्रयोजनों के लिए किया जाता है।	संख्या	---
34.	32(2)	फ्लोरोसेंट प्रकाश ट्यूब	संख्या	---
35.	32(3)	सोडियम और पारावाष्प विसर्जन लैम्प	संख्या	---
36.	34 I(1)	दो पहियों वाले मोटरयान जिनकी ईजन क्षमता 100 ब्रनसेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	संख्या	---
37.	34 I(1)	कम सं० 36 के अंतर्गत आने वाले दो पहियों वाले मोटर यान।	संख्या	---
38.	34 I(1)	तीन पहियों वाले मोटर यान	संख्या	---
39.	34 I(2)	सैलून कारों से भिन्न मोटरयान	संख्या	---
40.	34 I(3)	सैलून कारों से भिन्न मोटर यान	संख्या	---
41.	34 II	ट्रेक्टर जिनके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर हैं	संख्या	---
42.	34 III	संकेतक	भार	---
43.	63	तार के रस्से	भार	---
44.	64	कार्बन काजल	भार	---
45.	65	रबड़ प्रसंस्करण रसायन	भार	---
46.	68	कंक्रिट मिश्रक	संख्या	---
47.	67	पैइस, उत्खनित, नुलडोजर और मिट्टी हटाने वाले अस्प उपस्कर	संख्या	---
48.	68	लॉकोमोटिव	संख्या	---
49.	68	पेल डिब्बे	संख्या	---

सारणी-ख

क्रम. सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और मरम्मत अधि- नियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद सं०	मांस का वर्णन	संगणना के लिए ईकाई	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14	वर्णाक, रंग, पेंट, इमेसल, वार्निश, कालिख और सेलुलॉस लेकर	मूल्य	
2.	मद सं० 16 की उपमद III और IV	टायर (दूधों और परियों में भिन्न)	मूल्य	परन्तु यह कि कारखाने से निकासी किए गए टायरों की वास्तविक विनिर्माता ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 268/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 नवम्बर, 1982 द्वारा दी गई छूट का उपभोग नहीं किया है या वह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 88/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1984 द्वारा दी गई छूट का उपभोग नहीं करता है।
3.	16	ट्यूब	मूल्य	---
4.	16	फ्लैप	मूल्य	---
5.	16क(4)	पारेषण पट्टे, प्रवहण पट्टे या एसीवेटर पट्टे या बल्कनीकृत रबड़ का पट्टा लगाना	मूल्य	---
6.	16कक	संश्लिष्ट रबड़ जिसके अंतर्गत संश्लिष्ट सेटेक्स और पूर्व-बल्कनीकृत संश्लिष्ट रबड़ सेटेक्स हैं।	मूल्य	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. 29		अंतर्बहन इंजन	मूल्य	—
8. सख 30 की उपमद (क), (ख) और (ग)		विद्युत् मोटर	मूल्य	—
9. 30क		शक्ति से चलने वाले पम्प	मूल्य	—
10. 33ख		विजली के तार और केबल	मूल्य	—
11. 45		बजन अवधारित करने की मशीनरी और उपस्कर	मूल्य	—
12. 49		रोलिंग बेयरिंग	मूल्य	—
13. 50		सभी प्रकार के वैल्विंग एलैक्ट्रोड	मूल्य	—
14. 51		विलेपित अपवर्षक और वर्णचक्र	मूल्य	—
15. 51क		औजार	मूल्य	—
16. 62		औजारों का वयभग	मूल्य	—
17. 67		प्रेफाइट एलैक्ट्रोड और एनोड	मूल्य	—
18. 68		मशीन औजार	मूल्य	—
19. 68		बायुस और गैस संग्रहक	मूल्य	—
20. 68		वायलर	मूल्य	—
21. 68		जेल	मूल्य	—
22. 68		औद्योगिक बूल्ह और भट्टियां	मूल्य	—
23. 68		उच्चतापसह ईट	मूल्य	—

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्दिष्ट माल को लागू नहीं होगी जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्दिष्ट विनिर्मित किया जाता है और भारत में किसी स्थान पर लाया जाता है।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० मु०]

के० एस० बैकटगिरी, अवर सचिव

NO. 116/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 350(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 56AA of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby directs that in respect of excisable goods of the description specified in column (3) of Table A and Table B hereto annexed [hereinafter referred to as the specified goods] and falling under such item number of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the Central Excises Act] as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Tables and cleared from a factory for home consumption during the period commencing on and from the 1st day of March, 1984 and ending with the 28th day of February, 1985 [hereinafter referred to as the incentive period], in excess of the base clearances,—

(A) in a case where duty of excise on specified goods is chargeable under the Central Excises Act with reference to value and the effective rate of duty leviable under the Central Excises Act on such specified goods is not more than 20 per cent. ad valorem,—

- a credit of an amount equal to 30 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding the base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and
- a credit of amount equal to 40 per cent of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances;

(B) in any other case,—

- a credit of an amount equal to 15 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and
- a credit of an amount equal to 20 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances,

may be granted subject to the conditions, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the said Tables and the conditions specified below :—

- The clearances (including the base clearances) of the specified goods mentioned in column (3) of the said Tables shall be computed separately in respect of each serial number of the Tables specified in the corresponding entry in column (1) of the said Tables in terms of the unit for calculation specified in the corresponding entry in column (4) of the said Tables and in respect of each such serial number, the aggregate of the clearances of all the goods specified in column (3) of the said Tables against the said serial number shall be taken into account.
- In determining the clearances (including the base clearances) of the specified goods, the clearances of the specified goods exempted from the whole of the duties of excise leviable thereon under any or all of the said Acts and the clearance of the specified goods for export shall also be taken into account.

- (iii) No credit shall be allowed to any manufacturer before the 1st day of April, 1985.
- (iv) No credit shall be allowed in respect of a factory from which clearances of the specified goods—
- were effected for the first time on or after the 1st day of April, 1981; or
 - were not effected during the financial years 1981-82, 1982-83 and 1983-84.
- (v) No credit shall be allowed in respect of the duties of excise paid on the clearances of the specified goods in excess of 160% of the base clearances.
- (vi) In determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 23, 24, 25 and 26 of the said Tables A (hereinafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the quantity of the said specified goods received in the factory from outside during the base period or the incentive period for the manufacture of the said specified goods shall respectively be deducted from the clearances of the said specified goods effected during the base period or the incentive period.
- (vii) Notwithstanding anything contained in clause (ii) above, for determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 23, 24, 25 and 26 of the said Table A thereafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the clearances of the said specified goods effected within the factory of production during such periods for use in the manufacture of the said specified goods shall not be taken into account.
- Explanation.—For the purpose of this notification,—
- (1) “base clearances”,—
- in the case of a factory which had not remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason—
 - in respect of goods specified in column (3) of the said Table A, means 110% of the clearances of such goods from such factory during the base period; and
- in respect of goods specified in column (3) of the said Table B, means, 120% of the clearances of such goods from such factory during the base period;
 - in the case of a factory which had remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason, means the clearances as determined under sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii) of clause (a) above multiplied by the factor 365/365-X, where X denotes the total number of days comprised in the period or, as the case may be, periods during which the factory was so closed.
- (2) “base period” shall be the year in which the aggregate of the clearances of specified goods during the period, commencing on and from the 1st day of March, 1982 and ending with the 28th day of February, 1983, or the period commencing on and from the 1st day of March, 1983 and ending with the 29th day of February, 1984, whichever was higher.
- (3) “duties of excise paid” means the sum total of the duties of excise, if any, paid under the Central Excises Act, the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984).
- (4) “effective rate of duty leviable under the Central Excises Act” means the rate of duty specified in the First Schedule to the Central Excises Act, read with any notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force (other than a notification providing for any exemption for giving credit with respect to, or reduction of duty of excise on such goods equal to, any duty of excise already paid on the raw material or component parts used in the production or manufacture of such goods).
- (5) “value”—
- in relating to the goods specified against serial numbers 1 to 17 of the said Table B, means value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act;
 - in respect of the goods specified against serial numbers 18 to 25 of the said Table B, means value as determined under clause (a) above or, as the case may be in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue and Insurance No. 120/75 Central Excises, dated the 30th April, 1975.

TABLE-A

S. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944	Description of goods	Unit of calculation	Conditions
1	2	3	4	5
1.	14A	Soda Ash	Weight	—
2.	14AA(1)	Calcium carbide, bleaching paste and bleaching powder, sodium hydrosulphite, bicarbonate of soda, bichromates of potassium or sodium, hydrogen peroxide and potassium permanganate.	Weight	—
3.	14B	Caustic soda and caustic potash	Weight	—
4.	14C	Glycerine	Weight	—
5.	14DD	Synthetic Organic products	Weight	—
6.	14G	Hydrochloric and Sulphuric Acids	Weight	—
7.	14H(i)	Oxygen	Volume	—

1	2	3	4	5
8.	14H(ii), (iii) (iv) and (vi)	Chlorine, Ammonia, Carbonic Acid (carbon dioxide) and Acetylene.	Weight	—
9.	15A(1)	Artificial or synthetic resins and plastic materials and other materials.	Weight	—
10.	15AA	Organic surface active agents (other than soap); surface-Active preparations and washing preparations.	Weight	—
11.	16 I(1)(a)(i)	Tyres for two-wheeled motor vehicles namely, scooter, motor-cycles, mopeds and auto-cycles.	Number	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 268/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982, or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 88/84-Central Excises, dated the 6th April, 1984.
12.	16 I(1)(b)(i)	Tyres for motor vehicles other than those specified against S. No. 11 of this Table.	Number	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 268/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982, or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 88/84-Central Excises, dated the 6th April, 1984.
13.	16 I(?) (a), 16 I(3)(a)(i) and 16 I(3)(b)(i)	Tyres for tractors including agricultural tractors and tyres for trailers.	Number	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 268/82 Central Excises, dated the 13th November, 1982 or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 88/84-Central Excises, dated the 6th April, 1984.
14.	17(1)	Uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper).	Weight	Provided that in respect of uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper) cleared from the factory, the manufacturer has not availed of and does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 108/81-Central Excises, dated the 24th April, 1981 : Provided also that such paper has been produced out of pulp.
15.	17(1)	Paper board and all other kinds of paper.	Weight	Provided that such paper board or paper has been produced out of pulp.
16.	Sub-Item I of Item No. 18	Staple fibre and tow of cellulosic origin.	Weight	—
17.	-do-	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin—acrylic fibre.	Weight	—
18.	-do-	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin—polyester fibre.	Weight	—
19.	-do-	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin not falling under S. No. 17 or S. No. 18.	Weight	—
20.	Sub-Item II of Item No. 18	Man-made filament yarn consisting entirely of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both.	Weight	—

1	2	3	4	5
21. Sub-item II of item No. 18.	Nylon filament yarn, other than textured	Weight	—	
22. -do-	Polyester filament yarn, other than textured	Weight	—	
23. 25	Ingots, blocks, lumps and similar forms of steel, and waste and scrap of steel.	Weight	—	
24. 26A	Copper	Weight	Provided that such copper is manufactured in an integrated ore-based plant.	
25. 25	Goods falling under Item No. 25 of the said First Schedule, other than— (i) goods specified against S. Nos. 23 and 27 of this Table; and (ii) goods falling under sub-items (2) and (5) of the said Item No. 25.	Weight	Provided that such goods are manufactured in an integrated ore-based steel plant or in a factory with the aid of electric furnace.	
26. 26B	Zinc	Weight	Provided that such zinc is manufactured in an integrated ore-based plant.	
27. 25	Tin plates and tinned sheets	Weight	—	
28. 30B	Motor starters	Number	—	
29. 31(1)	Electric batteries (Dry type—other than metal Jacketed batteries)	Number	—	
30. 31(1)	Electric batteries (Dry type—metal jacketed batteries).	Number	—	
31. 31(2)	Electric batteries (storage type)	Number	—	
32. 32(1)	Vacuum and gas filled electric bulbs other than miniature lamps and visual indicator bulbs used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number	—	
33. 32(1)	Miniature electric bulbs and visual indicator lamps used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number	—	
34. 32(2)	Fluorescent lighting tubes	Number	—	
35. 32(3)	Sodium and Mercury vapour discharge lamps	Number	—	
36. 34I(1)	Two-wheeled motor vehicles of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres.	Number	—	
37. 34I(1)	Two-wheeled motor vehicles not falling under S. No. 36.	Number	—	
38. 34I(1)	Three-wheeled motor vehicles	Number	—	
39. 34I(2)	Motor vehicles other than saloon cars	Number	—	
40. 34I(3)	Motor vehicles other than saloon cars	Number	—	
41. 34II	Tractors, including agricultural tractors	Number	—	
42. 34B	Work trucks	Number	—	
43. 63	Wire ropes	Weight	—	
44. 64	Carbon black	Weight	—	
45. 65	Rubber processing chemicals	Weight	—	
46. 68	Concrete Mixers	Number	—	
47. 68	Graders, excavators, Bulldozers and other earth moving equipments.	Number	—	
48. 68	Locomotives	Number	—	
49. 68	Railway wagons	Number	—	

TABLE B

S. Item No. of the No. First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers.	Value	
2. Sub-Items III and IV of Item No. 16.	Tyres (other than tubes and flaps).	Value	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 268/82—Central Excises, dated the 13th November, 1982 or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 88/84—Central Excises, dated the 6th April, 1984.
3. 16	Tubes	Value	—
4. 16	Flaps	Value	—
5. 16A(4)	Transmission, conveyor or elevator belts or belting of vulcanised rubber.	Value	—
6. 16AA	Synthetic rubber, including synthetic rubber latex and pre-vulcanised synthetic rubber latex.	Value	—
7. 29	Internal Combustion Engines	Value	—
8. Sub-items (A), (B) & (C) of item 30.	Electric Motors	Value	—
9. 30A	Power Driven pumps	Value	—
10. 33B	Electric wires and cables	Value	—
11. 45	Machinery and appliances for determination of weight	Value	—
12. 49	Rolling bearings	Value	—
13. 50	Welding electrodes, all sorts	Value	—
14. 51	Coated abrasives and grinding wheels	Value	—
15. 51A	Tools	Value	—
16. 62	Tool tips	Value	—
17. 67	Graphite electrodes and anodes	Value	—
18. 68	Machine tools	Value	—
19. 68	Air and gas compressors	Value	—
20. 68	Boilers	Value	—
21. 68	Cranes	Value	—
22. 68	Industrial ovens and furnaces	Value	—
23. 68	Refractory bricks	Value	—

2. Nothing contained in this notification shall apply to the specified goods which are produced and manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India.

[F. No. 334/1/84—TR II]

K.S. VENKATAGIRI, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 117/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 351(अ) —केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की विधिवत कर्तवी है, अर्थात् :—

1. 55/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984
2. 60/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984
3. 64/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984
4. 65/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]
गौतम र, अवर सचिव

NOTIFICATION

NO. 117/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. 55/84—Central Excises, dated the 1st March, 1984.
2. 60/84—Central Excises, dated the 1st March, 1984.
3. 64/84—Central Excises, dated the 1st March, 1984.
4. 65/84—Central Excises, dated the 1st March, 1984.

[F. No. 334/1/84-TRU]
GAUTAM RAY, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 118/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 352(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 75/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 का निम्नलिखित और संशोधन कर्तवी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपाखण्ड सागणी नं० 118-01 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 118/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 352(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75/84—Central Excises, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the Table annexed to the said notification, Ref. No. 118. 01 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/84-TRU]

198 GI/84

अधिसूचना

सं० 119/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 353(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 234/82-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन कर्तवी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपाखण्ड अनुसूची में क्रमांक 49 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पञ्चात् और परन्तु में पहले निम्नीलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अन्तर्भावित की जाएंगी, अर्थात् :—

“50. मैदा अर्थात् “मैदा” के नाम से वाणिज्यिक अन्न या जल से गेहूँ का उत्पाद जिसे रोलर मिल या टाटा मिल में एक लोहर या नर्म सेहू या उसके समिश्रण का प्रयोग कर प्राप्त किया जाता है।

51. पहनावे के लिए तैयार धनुष (जो वाणिज्यिक अन्न से तैयार वस्त्र के नाम से जाना है), जिसे अन्तर्गत नाम परन्तु के दरम्यान और जगह की सहायता से जाने सम्भव है, किन्तु होस्ट्री को वस्तु नहीं है।

52. मोजिक, टाइलें अर्थात्, वाणिज्यिक अन्न से “मोजिक टाइलें” के नाम से जाना टाइलें।”

53. “Silver”

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 119/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 234/82—Central Excises, dated the 1st November, 1982, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after S. No. 49 and the entry relating thereto and before the proviso, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

“50. Maida, that is to say, the product of wheat known commercially as “maida” obtained by milling cleaned, hard or soft wheat or blends thereof in a roller flour mill.

51. Articles of ready to wear apparel (known commercially as ready made garments), including undergarments and body supporting garments but excluding articles of hosiery.

52. Mosaic tiles, that is to say, tiles known commercially as “mosaic tiles”.

53. Silver”.

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 120/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 354 (अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिश्र या मिश्रित स्नेहक तेल और ग्रीम, अर्थात् ऐसे स्नेहक तेलों और ग्रीमों को जो खनिज तेलों को मोधे मिलाकर या खनिज तेलों को किसी अन्य संघटकों के साथ मिलाकर या संयोजित करके प्राप्त किए गए हैं, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उक्थणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—“ब्लिज तेल” पद का अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मध्य सं. 6 के स्पष्टीकरण में है।

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

NOTIFICATION

NO. 120/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule (8) of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts blended or compounded lubricating oils and greases, that is to say lubricating oils and greases obtained by straight blending of mineral oils or by blending or compounding of mineral oils with any other ingredients, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation :—The expression “mineral oil” has the meaning assigned to it in Explanation 1 to item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[F. No. 334/1/84-TRU]

अधिसूचना

सं० 121/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 355(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (रास्त्रव विभाग) या (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विच्छिन्न करती है, अर्थात् :—

1. सं० 24/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965

2. सं० 162/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 अगस्त, 1971
3. सं० 41/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
4. सं० 86/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976.

[फा० सं० 334/1/84-टी० आर० यू०]

के० एम० वेकटगिरी, अवर सचिव

NOTIFICATION

NO. 121/84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or (Department of Revenue and Insurance), as the case may be, namely :—

1. No. 24/65—Central Excises, dated the 28th February, 1965.
2. No. 162/71—Central Excises, dated the 10th August, 1971.
3. No. 41/74—Central Excises, dated the 1st March, 1974.
4. No. 86/76—Central Excises, dated the 16th March, 1976.

[F. No. 334/1/84-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.